




GAK SUNG



GAKSUNG Co., Ltd.

FEDO Water light

CHEMICAL FREE

PERSONAL USE

NATURAL

LIGHT WEIGHT

PORTABLE

ADDED MINERALS

LOW COST

OXYGENATED WATER

PURIFIER

BPA-FREE

IT MAINTAINS THE LEVEL OF

- Calcium
- Magnesium
- Sodium

INCREASES pH LEVEL OF WATER BY 3 POINTS (ALKALINE WATER)

MAINTAINS pH LEVEL OF BODY & BALANCES FLUORIDE

REMOVES WASTE MATERIALS & HEAVY METALS

NO NEED OF ELECTRICITY

NO NEED OF CARTRIDGE

IT DOES SELF PURIFICATION BY REMOVING BACTERIA

ADDED GOOD EFFECTS OF FEDOLIGHT COMPONENTS

ANTI BACTERIAL & ANTI VIRAL

IT IS GOOD FOR ANTI HARDENING OF ARTERIES & PREVENT DEMENTIA (ABILITY TO THINK & REMEMBER)

जल का महत्व

जल जीवन के अमृत के रूप में जाना जाता है। जल, मानव जाति के लिए प्रकृति के अनमोल उपहारों में से एक है। मानव शरीर में दो तिहाई मात्रा पानी की है। इससे स्पष्ट है कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यह पाचन क्रिया में मदद करता है, रक्त संचार सही करता है, जीव विष बहार निकलता है तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। परन्तु जल-प्रदूषण और जल की बर्बादी के परिणामस्वरूप अब हमारे पीने के लिए ही शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

जीवन जल की विशेषताएँ

- जल स्वाद रहित होता है।
- जल की कोई खुशबू और बदबू नहीं होती है।
- जल में 11% हाइड्रोजन 89% ऑक्सीजन होती है।
- स्वच्छ और पारदर्शी।
- पीएच स्तर 7.5 से अधिक होता है।
- बैक्टीरिया और वायरस रहित।
- भारी धातु की संतुलित मात्रा।
- मोलीक्यूलर स्ट्रक्चर सही होना चाहिए।
- ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होना चाहिए।
- मिनरल्स आवश्यक मात्रा में
- रासायनिक पदार्थ रहित।

जीवन जल के स्रोत

नल का पानी




भूजल
(जमीनी पानी)



नदी / नहर का पानी



बारिश का पानी



कुएं का पानी



जीवन जल के लाभ

- शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है।
- दिमाग की कोशिकाओं को सक्रिय रखता है।
- शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है।
- मूत्र और गुर्दे के संक्रमण को रोकता है।
- रक्तसंचार में सुधार लाता है।
- थकान दूर करता है।
- मनोदशा में सुधार लाता है।
- सोचने की शक्ति में वृद्धि करता है।
- सर के दर्द में आराम लाता है।
- माइग्रेन में आराम देता है।
- पाचन शक्ति बढ़ाता है।
- कब्ज में आराम लाता है।
- वजन कम करता है।
- शरीर से गंदगी को बहार निकलता है।
- त्वचा को सुन्दर और स्वस्थ करता है।
- मुंह की बदबू को खत्म करता है।
- बालों को मजबूत घने और चमकदार बनाता है।

जल में गंदगी

- पानी में गंदगी या निलंबित ठोस (धूल, रेत, मिट्टी, जंग आदि)
- पानी में कीटाणु (शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रोगजनक रोगाणुओं, वायरस, परजीवी और उनके अंडे (अल्सर), आदि)
- पानी में खतरनाक रसायन (कारखाने का कचरा, डिटर्जेंट, अम्लक, हाइड्रोकार्बन, आर्सेनिक, कीटनाशक, कैडमियम, सिक्का, क्लोरीन आदि)

दूषित जल की भयंकर बीमारियाँ



1. Polio (poliomyelitis)



2. Polyomavirus infection



(Severe acute respiratory syndrome)

3. SARS



4. Malaria & Dengue



5. Lead poisoning



6. Hepatitis A



7. Diarrhoea



8. Dysentery



9. Cholera & Typhoid



10. Amoebiasis

- Anaemia
- Arsenicosis
- Ascariasis
- Botulism
- Campylobacteriosis
- Cryptosporidiosis
- Dracunculiasis
- Fluorosis
- Giardiasis
- Trichuriasis
- Hookworm infection
- Legionellosis
- Leptospirosis
- Lymphatic filariasis
- Malnutrition
- Methaemoglobinemia
- Onchocerciasis
- Scabies
- Schistomiasis
- Trachoma

फेडोलाईट के तत्व

- सेरिसाईट
- एलवान
- जर्मेनियम
- फेराईट
- इलाईट



Sericite



Germanium



Ferrite



Elvan Rocks



illite



Serpentine

फेडोलाईट के लाभ

- चयापचय गतिविधि को स्थिर करता है।
- शरीर में रक्त संचार सुचारित करता है।
- उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) कम कर देता है।
- रक्त के थक्के (Blood Clot) की संभावना को कम कर देता है।
- Arterial walls के खिचाव को ठीक रखता है।
- शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है।
- शरीर में पीएच (pH) संतुलन बनाए रखता है।
- शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
- गठिया से सम्बंधित सभी प्रकार के दर्द को कम कर देता है।
- मांसपेशियों की ऐंठन से छुटकारा दिलाता है।
- जोड़ों की ऐंठन से छुटकारा दिलाता है।
- साईनस की समस्या को कम कर देता है।
- सरदर्द, तनाव और शरीर के दर्द से छुटकारा दिलाता है।
- त्वचा सम्बंधित समस्याओं को दूर कर नया निखार लाता है।

फेडोजल (Fedojal)

फेडोलाईट के द्वारा तैयार किये गए फेडोजल (Fedojal) के मानव शरीर पर लाभ

- मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये पानी हल्का होता है, जिसे हमारा शरीर बहुत ही आसानी से ग्रहण करता है।
- फेडोजल में सामान्य जल की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में पौषक-तत्व, विटामिन एवम शरीर के लिए जरूरी और भी तत्व होते हैं, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं।
- ये शरीर की असंतुलित रासायनिक क्रियाओं को संतुलित करते हैं, इसके साथ ही रक्त में पानी के स्तर को बराबर बनाए रखते हैं।
- फेडोजल शरीर में मौजूद गन्दगी को तेजी से बाहर निकलता है, और कोशिकाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाता है।
- फेडोजल में एंटीआक्सीडेंट क्षमता होती है, जो कई बिमारियों जैसे – अस्थमा, हार्ट, शरीर की पाचन-क्रिया तथा कई अन्य बिमारियों को खत्म करने में मदद करती है।
- फेडोजल मानव शरीर में कैंसर रोधी क्षमता को बढ़ाता है।
- फेडोजल मानव शरीर में pH लेवल को भी संतुलित करने में मदद करता है। फेडोजल मानव शरीर में आक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है।
- फेडोजल जोड़ों में चिकनाई को भी बनाये रखता है।
- फेडोजल कब्ज को खत्म करने में बहुत ही कारगर होता है।
- फेडोजल थकान को खत्म करके, उर्जावान महसूस करवाता है।
- फेडोजल गुर्दे की पथरी को बाहर निकालता है।
- फेडोजल रक्त-वाहिकाओं को फैलाकर खून के संचार को सही करता है।
- रोजाना खाली पेट फेडोजल पीने से गैस से संबंधित तकलीफ में आराम मिलता है।
- रोजाना खाली पेट फेडोजल पीने से गैस से संबंधित तकलीफ में आराम मिलता है।
- रोजाना खाली पेट 1 लीटर फेडोजल पीने से, Blood sugar level को सामान्य बनाये रखने में मदद करता है।
- फेडोजल कोशिकाओं के पुनर्जन्म में भी मदद करता है।
- फेडोजल रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है।
- शरीर के अंदरूनी अंगों को साफ रखने में मदद करता है।
- ब्रश करते समय फेडोजल का इस्तेमाल करने से दांतों का पीलेपन खत्म होता है।
- फेडोजल मस्तिष्क की क्रियाओं को बढ़ावा देता है।
- फेडोजल आँखों की जलन को खत्म करते हुए, आँखों में पानी की कमी को दूर करता है।
- फेडोजल रक्त-वाहिकाओं में बने Clots को साफ कर खून के संचार को सही करता है यह कम रक्त दबाव और उच्च रक्त चाप से ग्रसित व्यक्ति के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है।
- फेडोजल रोज पीने से रक्त-चाप नियंत्रित रहता है।
- फेडोजल से बनी कॉफी और चाय का स्वाद भी अच्छा होता है और इसमें कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं रहती है।
- जब हम सामान्य जल में सब्जियों को धोते हैं, तो इसमें मौजूद स्वास्थ्यवर्धक तत्व खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब हम सब्जियों को फेडोजल से धोते हैं, तो स्वास्थ्यवर्धक तत्व बने रहते हैं और सब्जियां ज्यादा समय तक ताज़ा रहती हैं।
- फेडोजल में मांस या मछली को पकाने से यह पानी को अच्छे से सोख कर उसके स्वाद को और बढ़ा देता है।
- फेडोजल में चावल धोने से तथा उसे 20 से 30 मिनट तक उस पानी में छोड़ कर और उसी पानी में पकाने से चावल का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है।

तथ्य आंकड़े और अनुसंधान


- धरती पर 70 % पानी है जिसका केवल 2 % ही पीने योग्य है ।
- प्रदूषित जल ही दुनिया की 80 % बीमारियों का प्रमुख कारण है ।
- WHO के अनुसार, लगभग 22 लाख लोग दूषित जल की वजह से हर साल मरते हैं ।
- हर 21 सेकंड, एक बच्चा पानी से संबंधित बीमारी से मर जाता है ।
- औद्योगिक कचरे का लगभग 70% जल निकायों में फेंक दिया जाता है जो पानी को प्रदूषित करता है ।
- यूनिसेफ के अनुसार, पांच साल तक के 15 लाख बच्चे पानी की बीमारियों से हर साल मर जाते हैं, यानि रोज के 4100 बच्चे ।
- भारत की गंगा नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है, जिसमे सीवेज, कचरा, भोजन, और पशुओं के अवशेष हैं ।
- जल प्रदूषण का 80% खुले मैदान और जल निकायों पर कचरा फेंकने की तरह घरेलू सीवेज के कारण होता है ।
- 80% जल प्रदूषण कचरा खुले में फेंकने या घरेलू सीवेज जल निकायों में डालने से होता है
- एशिया की अधिकतर नदिया मानव अपशिष्ट से बने बैक्टीरिया से प्रदूषित है ।
- लगभग 1.2 अरब लोग या ग्रामीण क्षेत्रों में 3 में से 1 लोग खुले में शौच करते । जिससे आसपास के जल स्रोत दूषित हो जाते है ।
- 20 लाख टन मानव अपशिष्ट से हर रोज पानी को दूषित किया जाता है ।



WHO के अनुसार, R-O सिस्टम पानी में मौजूद टीडीएस को कम करके 10 पर्सेंट तक कर देता है । अगर पानी में टीडीएस 1200 एमजी/ लीटर है तो आरओ से 120 एमजी/ लीटर तक हो जाएगा । इस तरह ज्यादा टीडीएस की वजह से जो पानी हम नहीं पी सकते थे वह पीने लायक बन जाएगा । अगर हम पानी में आरओ तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिसके फलस्वरूप TDS के साथ पानी के आवश्यक तत्व भी निकल जाते हैं और वह पानी ज्यादा हानिकारक हो जाता है ।

हेजर्ड सेंटर के डायरेक्टर डूनु रॉय कहते हैं कि लंबे वक्त तक कम मिनरल वाला पानी पीने से शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी हो सकती है । वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक अगर पीने के पानी में मिनरल्स की कमी है तो उस कमी को अच्छा खाने से भी पूरा नहीं किया जा सकता ।

फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉ. कौशलकांत मिश्रा कहते हैं कि जब पानी से मिनरल का कंटेंट कम होता है तो उसकी वजह से बॉडी में मिनरल की कमी हो जाती है । तब हड्डी में जमा मिनरल निकलकर बॉडी के मिनरल लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं । इससे हड्डियों में कमजोरी आ सकती है और मिनरल के बिगड़े संतुलन की वजह से हॉर्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है ।



Minerals Filter Pouch

